



## राह चलते मोबाइल चुराने वाला शातिर दबोचा

-अभियुक्त के पास से चोरी के छह मोबाइल बरामद

-दो दिन पहले बृहस्पति महिला कालेज के पास की थी घटना

**कानपुर।** राह चलते लोगों के मोबाइल चुराने वाले शातिर को थाना नौबस्ता पुलिस ने दबोच लिया है। जनपद उन्नाव का रहने वाला यह शातिर अब तक कई वारदातों को अंजाम दे चुका है। पकड़े गए अभियुक्त के पास से अलग-अलग घटनाओं में चोरी किये गए 6 मोबाइल फोन भी बरामद हुए हैं। पुलिस पकड़े गए अभियुक्त से पूछताछ कर विधिक कार्रवाई कर रही है।

पुलिस को सफलता उस वक़्त मिली जब अभियुक्त चोरी किये गए मोबाइल फोन को बेचने लिए नौबस्ता की ओर से मो0 साइकिल से जा रहा था।

रविवार रात 21.30 बजे मिली सटीक सूचना पर पकड़े गए अभियुक्त की पहचान अंकित सिंह पुत्र दिनेश सिंह निवासी फत्तेपुर पोस्ट चैनपुर PS बिहार जिला उन्नाव के रूप में हुई। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 444/2022 धारा 379/411/414 भादवि0 व मु0अ0सं0 453/22 धारा 411/414 भादवि0 पंजीकृत है। अभियुक्त को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

अभियुक्त से पूछताछ में बताया कि मैं स्कूलों में राहगीरों से व बाजार के भीड़ भाड़ इलाकों से मोबाइल फोन चोरी कर लेता हूँ और उचित ग्राहक मिल जाता है तो उसे बेच कर अपने शौक पूरे करता हूँ। इनमें एक मोबाइल फोन स्क्रीन टच Redmi Note 8 को दो दिन पहले बृहस्पति कालेज से एक आदमी की स्कूटी से चोरी किया था। गिरफ्तार करने वाली टीम में उ0नि0 राहुल कुमार, हे0का0 राजीव यादव, का0सौरभ पाण्डेय, का0 प्रशांत मोहन शामिल रहे।

**नाम पता अभियुक्त:-** अंकित सिंह पुत्र दिनेश सिंह निवासी फत्तेपुर पोस्ट चैनपुर PS बिहार जिला उन्नाव उम्र 22 वर्ष

### बरामदगी:-

- 1- Real me 6 नीला रंग एण्ड्राइड
- 2- Real me Narazo नीला रंग एण्ड्राइड
- 3- POCO M2 Pro हरा रंग एण्ड्राइड
- 4- Tele Fono T ACE रंग नीला काला कीपैड
- 5- Realme c-31 रंग सिल्वर
- 6- Redmi Note 8